

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं.ईसीआई/प्रेस नोट/68/2019

दिनांक: 25 जून, 2019

प्रेस नोट

तमिलनाडु से राज्य सभा, 2019 के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन - तत्संबंधी।

तमिलनाडु से निर्वाचित राज्य सभा के 06 (छह) सदस्यों की पदावधि का निम्नलिखित के अनुसार दिनांक 24.07.2019 को अवसान होने वाला है:-

क्रम सं.	सदस्य का नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	टी. राथीनवेल	24.07.2019
2.	डॉ. वी. मेत्रेयन	
3.	के.आर. अर्जुनन	
4.	डॉ. आर. लक्ष्मणन	
5.	डी. राजा	
6.	कनीमोड़ी (दिनांक 23.05.2019 को लोक सभा के लिए निर्वाचित)	

2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार तमिलनाडु से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन आयोजित कराने का निर्णय लिया है:-

क्रम सं.	कार्यक्रम का विषय	दिन एवं दिनांक
1.	अधिसूचना जारी करना	01 जुलाई, 2019 (सोमवार)
2.	नाम-निर्देशन करने की अंतिम तारीख	08 जुलाई, 2019 (सोमवार)
3.	नाम-निर्देशनों की संवीक्षा	09 जुलाई, 2019 (मंगलवार)
4.	अभ्यर्थिताएं वापिस लेने की अंतिम तारीख	11 जुलाई, 2019 (गुरुवार)
5.	मतदान की तारीख	18 जुलाई, 2019 (गुरुवार)

6.	मतदान का समय	पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक
7.	मतों की गणना	18 जुलाई, 2019 (गुरुवार) अपराह्न 5:00 बजे
8;	वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	22 जुलाई, 2019 (सोमवार)

3. आयोग ने निदेश दिया है कि मतपत्र पर अधिमान(नों) को चिह्नित करने के उद्देश्य के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई, पूर्व-नियत विनिर्देश के केवल बैंगनी रंग के एकीकृत स्कैच पैन (नों) का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, उपर्युक्त निर्वाचन में कोई भी दूसरे पैन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

4. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए गए प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के सतर्क अनुवीक्षण के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे।

ह./-
(पवन दीवान)
अवर सचिव